

...in continuation of previous page

- iii. Total Income means the Total Income as appearing in the Restated Financial Statements.
- iv. EBITDA is calculated as profit for the period / year, plus tax expenses (consisting of current tax, deferred tax and current taxes relating to earlier years), Interest Expenses and depreciation and amortization expenses minus other Income.
- v. EBITDA Margin (%) is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations.
- vi. EBITDA CAGR (%) means: The three-year compound annual growth rate in EBITDA. $[(Ending\ Value/Beginning\ Value)^{(1/N)}]-1$
- vii. EBIT is calculated as profit for the period / year, plus tax expenses (consisting of current tax, deferred tax and current taxes relating to earlier years), Interest Expenses minus other Income.
- viii. RoCE (Return on Capital Employed) (%) is calculated as earnings before interest and taxes divided by average capital employed. Capital Employed includes Equity Shares, Reserves and surplus, Long-Term Borrowing.
- ix. Current Ratio: Current Asset over Current Liabilities.
- x. Operating Cash Flow: Net cash inflow from / (used in) operating activities.
- xi. Profit After Tax Means Profit for the period/year as appearing in the Restated Financial Statements.
- xii. PAT Margin (%) is calculated as Profit for the period/year divided by Revenue from Operations.
- xiii. RoE (Return on Equity) (%) is calculated as net profit after tax for the period/ year divided by Average Shareholder Equity.
- xiv. Net Worth means the aggregate value of the paid-up share capital and reserves and surplus of the company.
- xv. EPS: Earning per share is calculated as PAT divide by Weighted No. of equity shares.

Explanation for KPI metrics

KPI	Explanations
Revenue from Operations	Revenue from Operations is used by our management to track the revenue profile of the business and in turn helps assess the overall financial performance of our Company and size of our business.
Revenue CAGR %	Revenue CAGR informs the management of compounded annual growth rate i.e. Rate at which Company's revenue are growing on annual basis.
Total income	Total income is used by the management to track revenue from operations and other income.
EBITDA	EBITDA provides information regarding the operational efficiency of the business
EBITDA Margin (%)	EBITDA Margin (%) is an indicator of the operational profitability and financial performance of our business
EBITDA CAGR %	EBITDA CAGR indicate our compounded growth of the business
ROCE %	ROCE provides how efficiently our Company generates earnings from the capital employed in the business.
Current Ratio	Current ratio indicates the company's ability to bear its short-term obligations
Operating Cash Flow	Operating cash flow shows whether the company is able to generate cash from day-to-day business
PAT	Profit after Tax is an indicator which determine the actual earnings available to equity shareholders
PAT Margin (%)	PAT Margin (%) is an indicator of the overall profitability and financial performance of the business.
Net Worth	Net worth is used by the management to ascertain the total value created by the entity and provides a snapshot of current financial position of the entity.
ROC/RONW	ROC/RONW (%) is an indicator which shows how much company is generating from its available shareholders' funds
EPS	Earning per shares is the company's earnings available of one share of the Company for the period

3. WEIGHTED AVERAGE RETURN ON NET WORTH FOR THE FINANCAL YEAR ENDED ON MARCH 31, 2026, 2025, 2024 OF OUR COMPANY IS 60.52%.

4. DISCLOSURES AS PER CLAUSE (9)(K)(4) OF PART A TO SCHEDULE VI, AS APPLICABLE.

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (Equity Shares)

The details of issuance of Equity Shares or convertible securities, excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days is as follows:

Name of Allottee	No. of Equity Shares allotted	Date of allotment	Face value per Equity Share (in ₹)	Issue Price per Equity Share (in ₹)	Nature of Allotment	Nature of Consideration	Total Consideration (in ₹ thousands)
Raman Talwar	3,38,499	March 26, 2025	10/-	65/-	Right Issue	Cash	22,002.44/-
Connect Fund	3,38,499	March 26, 2025	10/-	65/-	Right Issue	Cash	22,002.44/-
Total	6,76,998	-	10/-	65/-	-	-	44,004.88/-

b) The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (Equity Shares)

There have been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of Directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days

Date of Transfer	Name of Transferee	No. of Equity Shares	Face Value (in Rs.)	Transfer Price per Equity Share (in Rs.)	Nature of Consideration	Nature of transaction	Total Consideration (in Rs.)
Not Applicable							

c) Since there are transactions to report under (a) only, therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters / Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction), not older than 3 financial years prior to the date of filing of this Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions, is not applicable

d) Weighted Average Cost of Acquisition on Floor price and Cap price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor Price (i.e. ₹ 87)	Cap Price (i.e. ₹ 92)
Weighted Average Cost of Acquisition of Primary/ new issuance as per paragraph 7(a) above	65.00	1.34 Times	1.42 Times
Weighted Average Cost of Acquisition of Secondary transactions as per paragraph 7(b) above	N.A.	N.A.	N.A.
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions as per paragraph 7(c) above	N.A.	N.A.	N.A.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed/ undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the date of filing of DRHP.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s), promoter group(s) and additional to 10 Shareholders from the DRHP filing date: Nil

Details of pre-issue shareholding as at the date of advertisement and post- issue shareholding as at allotment for promoter(s), promoter group and additional top 10 Shareholders are as follows:

Particular	Pre-Issue		Post-Issue*	
	Number of Equity Shares	As a % of Issued Capital	Number of Equity Shares	As a % of Issued Capital
Promoters				
Manish Kumar Srivastava	24,94,440	24.96%	24,94,440	11.35%
Avinash Kumar Singh	24,98,126	25.00%	24,98,126	11.38%
Anupam Kumar Srivastava	24,92,595	24.94%	24,92,595	11.33%
Sub-Total (A)	74,85,161	74.90%	74,85,161	55.06%
Promoter Group				
Adhishree Srivastava	3,690	0.04%	3,690	0.03%
Sheetal Chauhan	5,535	0.06%	5,535	0.04%
Ruchika Kumari	04	0.00%	04	0.00%
Sub-Total (B)	9,229	0.10%	9,229	0.07%
Top 10 Public Shareholding				
ACME Capital Venture Fund	12,49,061	12.50%	12,49,061	9.19%
Raman Talwar	8,99,061	9.00%	8,99,061	6.61%
SVPAN Consultant Private Limited	3,50,000	3.50%	3,50,000	2.57%
Sub Total (C)	24,98,122	25.00%	24,98,122	18.38%
Grand Total (A+B+C)	99,92,512	100%	99,92,512	73.50%

Notes:

- 1. Includes all options that have been exercised until date of Red Herring Prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until date of prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE

The "Basis for Issue Price" on Page 98 of the Red Herring Prospectus has been updated with the above Issue Price. For the updated details under the chapter titled "Basis for Issue Price", please refer to the website of the Book Running Lead Manager or scan the QR code provided on the first page of this advertisement.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Anchor Portion Issue Opening/ Closing Date	THURSDAY, AUGUST 13, 2026
Bid/ Issue Opening Date	FRIDAY, AUGUST 14, 2026
Bid/ Issue Closing Date	TUESDAY, AUGUST 18, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026
Initiation of Allotment/ Refunds/ Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account* (T+2)	THURSDAY, AUGUST 20, 2026
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	THURSDAY, AUGUST 20, 2026
Commencement of Trading of The Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	FRIDAY, AUGUST 21, 2026

GENERAL RISKS: Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page no 25 of this Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issued through this Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") in terms of the Regulation 229(2) of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an 'in-principle' approval LO\SME-IPO\JB\IP\719\2025-26 dated February 25, 2026 from BSE SME for using its name in the issue document for listing of our Company on the SME platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("BSE")

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus was not filed with SEBI and the SEBI shall not issue any observation on Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" on page 275 of the Red Herring Prospectus

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the contents of the Red Herring Prospectus or the price at which the Equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 242 of the Red Herring Prospectus.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Book Running Lead Manager. The financial data presented in chapter "Basis for Issue Price" on page 98 of the Red Herring Prospectus is based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the chapter titled "Risk Factors" and "Restated Financial Statements" on page 25 and 185 respectively of the Red Herring Prospectus. The Audit Committee at a meeting recommended the Price noting that the Price is justified based on quantitative factors and key financial and operational performance indicators ("KPIs") disclosed in 'Basis for Issue Price' section vis-à-vis the WACA of primary issuances /secondary transactions disclosed in the "Basis for Issue Price" section.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013: Main Objects as per MOA of our Company: For information related to the main objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 156 of the Red Herring Prospectus and Clause III (A) of the Memorandum of Association of our Company. The MOA is a material document for inspection in relation to the Issue.


PRECAUTIONARY NOTICE TO INVESTORS:

INVESTORS ARE ADVISED TO READ THE RED HERRING PROSPECTUS INCLUDING THE RISK FACTORS CAREFULLY BEFORE TAKING AN INVESTMENT DECISION IN THIS ISSUE. FOR TAKING AN INVESTMENT DECISION, INVESTORS MUST RELY ON THEIR OWN EXAMINATION OF THE ISSUER AND THIS ISSUE, INCLUDING THE "RISK FACTORS" ON PAGE NO. 25 INVOLVED. SPECIFIC ATTENTION OF THE INVESTORS IS INVITED TO THAT ANY NEWS/ ADVERTISEMENTS/ SMS/ MESSAGES/ ARTICLES AND VIDEOS, IF ANY, BEING CIRCULATED IN THE DIGITAL MEDIA AND/OR PRINT MEDIA, SPECULATING ABOUT THE INVESTMENT OPPORTUNITY IN OUR COMPANY'S ISSUE AND ABOUT EQUITY SHARES OF OUR COMPANY BEING AVAILABLE AT PREMIUM AND/OR DISCOUNT TO THE ISSUE PRICE ("MESSAGE") DURING THE ISSUE PERIOD IS AND/ OR WILL NOT AND/ OR HAS NOT BEEN ISSUED BY OUR COMPANY OR ANY OF OUR DIRECTORS, KEY MANAGERIAL PERSONNEL, PROMOTERS, PROMOTER GROUP OR GROUP COMPANIES. ANY SUCH MESSAGE IN CIRCULATION IS MISLEADING & FRAUDULENT ADVERTISEMENT AND ISSUED BY A THIRD PARTY TO SABOTAGE THE IPO, OUR COMPANY OR ANY OF OUR DIRECTORS, KEY MANAGERIAL PERSONNEL, PROMOTERS, PROMOTER GROUP OR GROUP COMPANIES AND THE INTERMEDIARIES ARE NOT INVOLVED IN ANY MANNER WHATSOEVER.

Liability of Members: The Liability of members of Company is Limited.

Amount of Share Capital of Our Company and Capital Structure: The authorized and issued, subscribed and paid-up Equity share capital of the Company as on the date of the Red Herring Prospectus is as follows: The authorized share capital of ₹ 1,60,000 Thousands divided into 1,60,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, subscribed and paid-up equity share capital of 99,92,512 Thousands divided into 99,92,512 Equity Shares of ₹10/- each. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 69 of the Red Herring Prospectus

Name of the Signatories to the MOA of the Company and the number of Equity Shares held by them: The names of the signatories of the Memorandum and Association of the Company and the number of Equity shares subscribed by them at the time of signing of Memorandum of Association: Initial allotment to Mr. Manish Kumar Srivastava, Me. Avinash Kumar Singh and Mr. Anupam Kumar Srivastava being the subscribers of our Company.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
		
Corporate Makers Capital Limited 611, 6th Floor, Pragati Tower, Rajendra Place, New Delhi- 110008 Telephone: 011 41411600 Email: info@corporatemakers.in Website: www.corporatemakers.in Investor Grievance Email: compliance@corporatemakers.in Contact Person: Mr. Manish Kumar Singh/ Mr. Rohit Pareek SEBI Registration Number: INM000013095 CIN: U65100DL1994PLC063880	ABHIPRA CAPITAL LIMITED GF 58-59, World Trade Center, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110001 Telephone: +91-11-42390799 Email ID: cs@abhipra.com; Investor grievance email: grievance@abhipra.com; Website: www.abhipra.com Contact Person: Mr. Kapil Bansal SEBI Registration Number: INR000003829 CIN: U74899DL1994PLC061802	Mr. Akhil Jain B-16, 2nd Floor, Sector-63, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh- 201301 Telephone: +91 92179 95892 Email: cs@ens.enterprises Website: www.ens.enterprises Applicants can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc. All complaints, queries or comments received by Stock Exchange / SEBI shall be forwarded to the Book Running Lead Manager, who shall respond to the same.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Issue at www.corporatemakers.in, website of company at www.ens.enterprises and website of stock exchange at www.bseindia.com

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and SME platform of BSE at www.ens.enterprises, www.corporatemakers.in and www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: ENS Enterprises Limited, **Book Running Lead Manager:** Corporate Makers Capital Limited. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of SME platform of BSE www.bseindia.com and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

BANKERS TO THE ISSUE / REFUND BANK / SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

SYNDICATE MEMBER: ACME Capital Market Limited

BANKER TO THE COMPANY: ICICI Bank Limited

Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 24 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as prescribed to them in the Red Herring Prospectus.

For ENS Enterprises Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ms. Akhil Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Date – August 10, 2026
Place – NOIDA

ENS Enterprises Limited, is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Uttar Pradesh-II on August 07, 2026, website of Book Running Lead Manager to the issue at www.corporatemakers.in, website of the Company i.e. www.ens.enterprises and website of the BSE at www.bseindia.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations and the applicable laws of the jurisdiction where those offer and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.



EXICOM TELE-SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan - 173213, Himachal Pradesh, India
Telephone: +91 124 6615 200, Email: investors@exicom.in, Website: www.exicom.com
CIN: L64203HP1994PLC014541

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
(STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE FIRST QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

The Board of Directors at its meeting held on August 10, 2026, approved the Unaudited Financial Results of the Company ("Financial Results"), for the First Quarter ended June 30, 2026 of the Financial Year 2026-2027, both on Standalone & Consolidated basis.

The Unaudited Financial Results along with the Limited Review Report (Standalone & Consolidated), are available on the Company's website at www.exicom.com and on the websites of Stock Exchanges, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Financial Results can also be accessed by scanning the QR code given below:



By the order of the Board
For Exicom Tele-Systems Limited
Sd/-
Anant Nahata
Managing Director
DIN: 02216037

Date: August 10, 2026
Place: Gurugram

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L42909TN1961PLC004568
Registered Office: 3rd Floor, New No.48, Old No.21, Savidhaanu Building, Casa Major Road, Egmore, Chennai – 600 008

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2026.

(under Regulation 33 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations 2015)

The Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of W.S. Industries (India) Limited ("the Company") for the quarter ended 30th June 2026, as approved by the Board of Directors of the Company, at their meeting held on 10th August 2026, along with the Limited Review Report issued by the Statutory Auditors are available on the website of the Company at the link below and can also be accessed by scanning the Quick Response ("QR") Code given below:

Weblink: https://wsindustries.in/wp-content/uploads/2026/08/WSI_Q_I_Results_SD.pdf

QR Code:



Place: Chennai
Date: 10th August 2026

For W. S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
K.V. PRAKASH
WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 01085040

संक्षिप्त

समाचार

चांदी 3,700 उछली, सोनेमें भी तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने और चांदी की कीमत में आज तेजी आई है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी 3,700 रुपये से अधिक उछल



गई। हालांकि शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत में गिरावट आई क्योंकि पिछले हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की। लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ और यह 1,000 रुपये तक चढ़ गया। अमेरिका में लेबर मार्केट का डेटा उम्मीद से कमजोर रहा है जिसके कारण फेड रिजर्व के सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना कम हो गई है। एमसीएक्स पर 4 सितंबर की डिलीवरी के लिए चांदी वायदा पिछले सत्र में 2,31,466 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था और आज 231799.00 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 3,700 रुपये से ज्यादा तेजी के साथ 2,35,200 रुपये तक पहुंचा। इसी तरह 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 1,51,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और आज 151793.00 रुपये पर खुला। शुरुआती काराबोर में यह 1,51,461 रुपये तक गिरा लेकिन फिर 1,52,842 रुपये तक चढ़ा। हालांकि सरांफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई है जबकि चांदी प्लेट ट्रेड कर रही है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 380 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,970 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट वाला सोना 350 रुपये सरता होकर 1,39,300 रुपये पर आ गया जबकि 18 कैरेट वाला सोना 280 रुपये नीचे 1,13,980 रुपये पर आ गया। आमतौर पर कम ब्याज दर वाले माहौल में सोने को फायदा होता है क्योंकि बिना आय वाले एसेट रिटर्न देने वाले निवेश की तुलना में ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। 10200 जीएमटी स्पोर्ट गोल्ड 0.5% गिरकर 4,322.28 प्रति औंस हो गया जबकि स्गोल्ड प्यूचर्स 0.4% गिरकर 4,381.60 पर आ गया। स्पोर्ट सिल्वर भी 0.2% गिरकर 63.45 प्रति औंस पर आ गई।

बालकटानेके 2700,355 कीकाँफी, ऑस्ट्रेलियामें सालाना 67 लाख रुपये कावेतनभी कम पड़ता है!

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहां का एक डॉलर भारत में 67 रुपये के बराबर है। मतलब कि कोई व्यक्ति वहां यदि साल के एक लाख डॉलर कमाता है तो यहां की करेंसी में वह 67 लाख रुपये हो गया। आप समझेंगे कि इतने पैसे में तो वह खूब पैसे बचा लेगा। लेकिन, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई जितना कमाता है, वहां खर्च भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही करना पड़ता है। इसलिए बचत के नाम पर थोड़ा ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले करन सिंह गिल ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है। उसमें वह बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी सालाना सैलरी 100,000 है। यदि भारतीय रुपये में इसे जोड़ें तो यह 67 लाख रुपये बैठता है। लेकिन वह खर्च भी तो करता है ऑस्ट्रेलिया में ही। वहां भारतीय रुपया नहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट करना होता है। इसी में सब पैसे खर्च हो जाते हैं। यदि ज्यादा शेखी बघारे तो यह राशि भी कम पड़ेगी। गिल बताते हैं कि उनकी आमदनी में से 22,788 तो टैक्स और मेडिकेफेयर लेवी के चले जाते हैं। इतने देने के बचे करीब 77,000। इसमें से मकान का वार्षिक किराया 26,000 जाएगा। अब बचे करीब 51,000। वह बताते हैं कि वह घर-गृहस्थी चलाने में उसके साल में करीब 20,000 चले जाते हैं। इनमें किराने का सामान या ग्रासरी आइटम, ट्रांसपोर्ट, बिजली का बिल, फोन का बिल और बीमा का खर्च शामिल है। इसके बाद उसके पास बचे करीब 31,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर।

कार बेचकर शुरू किया घड़ियों का बिजनेस, आज 25 करोड़ रुपये का कारोबार, पीएम मोदी की भी पसंद

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर कपड़े और ज्वेलरी अपनी पसंद के हिसाब से बनवाई जा सकती है, तो घड़ी क्यों नहीं इसी सोच और घड़ियों के जुनून ने जयपुर के गौरव मेहता को एक अनोखा बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा दी। उन्होंने साल 2013 में जयपुर वॉच कंपनी की शुरुआत की, जो पुराने सिक्कों, डाक टिकटों, पेंटिंग और खास डिजाइन से कस्टमाइज्ड घड़ियां बनाती है। शुरुआत में इस बिजनेस में काफी मुश्किलें थीं।

इसके बाद उनकी टीम ने आधिकारिक तस्वीरें चेक कीं और पता चला कि घड़ी वास्तव में वही थी। खास बात यह थी कि इसके लिए कोई पेड कैपेन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या क्क अभियान नहीं चलाया गया था। इसके बाद कंपनी की ऑनलाइन डिमांड तेजी से बढ़ी। पहली बार उसके कारोबार में ऑनलाइन बिक्री ने ऑफलाइन रिटेल को पीछे छोड़ दिया।

कार बेचकर लगाए 30 लाख रुपये

करीब 30 लाख रुपये लगाए। इसके लिए उन्होंने अपनी कार बेच दी और दोस्तों से पैसे उधार लिए। शुरुआत में उन्होंने घड़ी बनाने की कला को समझने के लिए काफी रिसर्च और पुराने सिक्कों के विशेषज्ञों तथा घड़ी बनाने वालों के साथ काम किया।

अर्थ/बाजार

एलन मस्क की स्पेसएक्स से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल-कैप शेयर 11% उछला

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत का स्मॉल-कैप आईटी स्टॉक ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयर में सोमवार को कारोबारी सत्र में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। यह उछाल तब आया, जब कंपनी ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इंटरनेशनल के साथ 150 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की घोषणा की। इस खबर के बाद ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक का शेयर आज बीएसई पर 20.11 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, जबकि पिछले सप्ताह शुक्रवार को यह 19.74 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने 22.80 रुपये का हाई भी टच किया।

इस करार के तहत 18 महीने की अवधि के लिए 150 मिलियन डॉलर की है, जो विभिन्न शर्तों और नियमों के अधीन होगी। यह सौदा ब्लू क्लाउड के वैश्विक ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिब्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन और डेटा-सेंटर समाधानों में विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कंपनी के चेयरमैन ने क्या कहा: ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कुमार कोडाली ने कहा, ‘यह हमारे



स्पेसएक्स के साथ क्या है करार

कंपनी ने 10 अगस्त को एक्सचेंज को दी सूचना में बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अमेरिकी सहायक कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड यूएसए ने स्पेसएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ़ वर्क नंबर 1 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एसओडब्ल्यू 9 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच हुए मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट का हिस्सा है।

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह ब्लू क्लाउड की इंटीग्रेटेड एआई कंप्यूट, साइबर सुरक्षा और डेटा-सेंटर सॉल्यूशंस को बड़े पैमाने पर डिजाइन, बनाने और संचालित

करने की क्षमता को दर्शाता है। हमारा मानना है कि यह कार्यक्रम ग्लोबल कस्टमर्स के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं के निर्माण की हमारी लंबी अवधि की रणनीति को मजबूत करता है। ‘

अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी

40,000 करोड़ के गबन का आरोप



नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किल बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी दो कंपनियों रिलायंस कम्प्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गईं। इनमें दोनों कंपनियों के साथ-साथ ग्रुप में सीनियर अधिकारी रहे गौतम दोषी, सतीश सेठ और अमिताभ झुनझुनवाला को भी आरोपी बनाया गया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक फंड के गबन का आरोप है। ईडी ने आरकॉम के खिलाफ अपनी चार्जशीट में कहा है कि कंपनी को अपराध से हुई कमाई का हिसाब 40,186 करोड़ रुपये लगाया गया है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कंसोर्टियम को कंपनियों द्वारा नहीं चुकाई गई बकाया राशि है। साथ ही उन पर फंड जुटाने, उसका इस्तेमाल करने, छिपाने और दिखाने में भी अहम भूमिका निभाना का आरोप लगाया गया है। इसमें 1 बिलियन डॉलर की राशि के अंतिम इस्तेमाल का गलत सर्टिफिकेशन भी शामिल है।

अटैच संपत्ति जब्त करनेकीमांग

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पहले अटैच की गई 8,078 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने की मांग की। यह संपत्ति रिलायंस कम्प्युनिकेशंस और उसके प्रमोटरों और डायरेक्टर्स की है। इनमें अनिल अंबानी की संपत्ति भी शामिल है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ चार्जशीट में कहा गया है कि जांच से पता चला कि एनएचएआई द्वारा दिए गए चार टोल-रोड प्रोजेक्ट्स से पब्लिक फंड को दूसरी जगह लगाने की एक सुनियोजित योजना थी। इनमें त्रिवी-करू, त्रिवी-डिंडीगुल, सलेम-उल्लुदुरपेट और जयपुर-रींगस प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स को अनुदान और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से मिले लोन के जरिए फाइनेंस किया गया था। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान लगभग 187 करोड़ रुपये फर्जी सब-कॉन्ट्रैक्टिंग काम के नाम पर निकाल लिए गए।

कैसे की हेराफेरी

आरोपपत्र में कहा गया है कि बाद में ऐसे दस्तावेज बनाए गए जिनसे इन ट्रांसफर को असली प्रोजेक्ट खर्च के तौर पर दिखाया जा सके, जबकि फंड को शेल कंपनियों और हीरा व्यापारियों के जरिए घुमाया गया। आरकॉम के बारे में कहा कि मंजूर किए गए अंतिम इस्तेमाल के बजाय, घरेलू देनदारियों को चुकाने और घुमाने के लिए धोखाधड़ी से नई क्रेडिट सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया।

टाइटन का शेयर ऑल टाइम हाई पर, 7 महीने में 80,000 करोड़ का रिटर्न, राकेश झुनझुनवाला को बनाया था बिग बुल

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का शेयर आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसी शेयर ने दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला को भारतीय मांग, सोने का 'स्थिर बुल' बनाया था। टाइटन करीब दो साल तक कमजोर रिटर्न के बाद एक बार फिर निवेशकों की चहेती बन गई है। इस साल कंपनी की मार्केट वैल्यू में 80,000 करोड़ से अधिक की तेजी आई है। इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें जूलरी की स्थिर मांग, सोने की स्थिर कीमत, ऑर्गेनाइज्ड जूलरी की बढ़ती मार्केट हिस्सेदारी, तनिष्क और कैरेटलेन का मजबूत

कामकाज शामिल है। टाइटन का शेयर बीएसई पर पिछले सत्र में 4,943 रुपये पर बंद हुआ था और आज 4,977.20 रुपये पर खुला।

कारोबार के दौरान यह 3% से ज्यादा तेजी के साथ 5,121.30

इस साल क्या बदल गया इस साल जूलरी की मांग



रुपये तक पहुंचा जो इसका ऑल टाइम हाई है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। पिछले दो साल में स्टॉक ने लगभग प्लेट रिटर्न दिया। इससे ऊंचे वैल्यूएशन, सोने की बढ़ती कीमत, कम खर्च और मांग को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा था।

उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत रही। लोगों को रुझान अब ऑर्गेनाइज्ड जूलरी चेन की तरफ बढ़ रहा है। इस बदलाव ने बड़े ब्रांडेड कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की है। खासकर शहरी और कस्बों में यह ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसका टाइटन को काफी फायदा मिला है।

कहां तक जाएगी कीमत

कंपनी के जुन तिमाही के नतीजों से भी शेयरों में तेजी आई। टाइटन ने पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट में 63% की बढ़ोतरी के साथ 1,777 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया। टाइटन के लिए 5,290 का टारगेट प्राइस तय किया है। उसका कहना है कि भारत के जूलरी सेगमेंट का आउटलुक व्यापक कमजोरान मार्केट की तुलना में मजबूत बना हुआ है। टाइटन कंपनी पर अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 5,075 से बढ़ाकर 5,700 कर दिया है। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल ने अपनी बाय कॉल और 6,000 का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है।

सेबी के नए नियम: एक सितंबर से खाते में नॉमिनी जोड़ना ही होगा

नईदिल्ली, एजेंसी। डिमैट और म्यूचुअल फंड खातों के नॉमिनी से जुड़े नए नियम एक सितंबर 2026 से लागू हो जा रहे हैं। अब निवेशकों के लिए एकल डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य होगा। अगर वे नॉमिनी नहीं देना चाहते हैं तो नामांकन से बाहर रहने की घोषणा करनी होगी। शेयर बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है। सेबी के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य निवेशक की मृत्यु के बाद शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट्स का ट्रान्सफर आसान बनाना और कानूनी विवाद कम करना है। अगर कोई निवेशक नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, तो वह अपने ब्रोकर, बैंक या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके 'ऑफ्ट-आउट' का विकल्प चुन सकता है। इसके लिए निर्धारित घोषणा-पत्र जमा करना होगा। संयुक्त डिमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी बनाना अब भी वैकल्पिक रहेगा। हालांकि, ऐसे मामलों में नॉमिनी जोड़ने या बदलने के लिए सभी संयुक्त खाताधारकों की सहमति जरूरी होगी। तीन ही रहेगे नॉमिनी: सेबी ने पहले एक खाते में नॉमिनी की अधिकतम संख्या तीन से बढ़ाकर 10 करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया है। अब निवेशक पहले की तरह अधिकतम तीन नॉमिनी ही रख सकेंगे। यदि हिस्सा तय नहीं किया गया, तो संपत्ति तीनों में बराबर बांटी जाएगी। वीडियो सत्यापन की प्रक्रिया खत्म होगी: पहले अगर कोई निवेशक अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहता था तो उसे सबूत के तौर पर अपना एक वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़ता था। इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब निवेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन एक साधारण घोषणा पत्र भरकर मना कर सकते हैं। कोई वीडियो नहीं देना होगा। कम दस्तावेज देने होंगे: पहले पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी जानकारी और हिस्सेदारी प्रतिशत जैसी कई जानकारीयां अनिवार्य करने का प्रस्ताव था।

सीएनएच इंडिया की पहली छमाही में ट्रैक्टर बिक्री 42 प्रतिशत बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी कंपनी

नईदिल्ली, एजेंसी। कृषि उपकरण विनिर्माता कंपनी सीएनएच की भारतीय इकाई ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में घरेलू बाजार में 30,248 ट्रैक्टर बेचे। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी की भारत में बाजार हिस्सेदारी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सीएनएच इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नरेंद्र मिश्र ने कहा कि 2026 की जनवरी-जून अवधि के दौरान कंपनी का ट्रैक्टर निर्यात करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 6,666 वाहन हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी शुल्क से कुछ समय के लिए बाधा आई थी लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर निर्यात में फिर तेजी आई। कंपनी भारत में न्यू हॉलैंड और केस आईएच ब्रांड के तहत कारोबार करती है। मिश्र ने कहा कि पहली छमाही में घरेलू ट्रैक्टर उद्योग में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सीएनएच इंडिया की बिक्री 42 प्रतिशत बढ़ी और कंपनी ने 30,000 से अधिक ट्रैक्टर बेचे। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती और अनुकूल मानसून से पहली तिमाही में बिक्री को मजबूती मिली। हालांकि, बाजार का रुख कुछ नरम पड़ने से दूसरी छमाही में उद्योग की बिक्री पर दबाव रह सकता है। इसके बावजूद पूरे वर्ष मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। मिश्र ने पिछले वर्ष कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों, डीलर नेटवर्क के विस्तार और उसकी वित्तीय सेवा इकाई सीएनएच कैपिटल के सहयोग को दिया। मिश्र ने कहा कि कंपनी ग्रेटर नोएडा स्थित अपने मौजूदा संयंत्र के निकट चौथा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी।


exicom
beautifully engineered™

पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन-173213, हिमाचल प्रदेश, भारत

टेलीफोन: +91 124 6615 200, ई-मेल: investors@exicom.in, वेबसाइट: www.exicom.com


सीआईएन: L64203HP1994PLC014541

30 जून, 2026 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) का विवरण

निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2026-2027 की 30 जून, 2026 को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों **“(वित्तीय परिणाम)”** को स्टैंडअलोन एवं समेकित दोनों आधार पर अनुमोदित किया।

सीमित समीक्षा रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित) सहित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.exicom.com** और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध हैं।

वित्तीय परिणामों को नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है:



दिनांक: 10 अगस्त, 2026
स्थान: गुरुग्राम

नोट: उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।

बोर्ड के आदेश से

एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./—

अनंत नहाटा

प्रबंध निदेशक और सीईओ

डीआईएन: 02216037